

9th June, 2023**The BSE Limited**

Department of Corporate Services

Floor 1, New Trading Ring

Rotunda Building, P.J. Towers

Dalal Street, Fort

Mumbai 400 001.

Scrip Code - 520057**Listing Compliance****National Stock Exchange of India Ltd.**

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai 400 051.

Symbol - JTEKTINDIA; Series - EQ**Sub : Intimation of Unpaid / Unclaimed Dividend published in Newspaper.**

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copies of the press cuttings of the public notice given by the Company in Business Standard Newspaper (English as well as Hindi) on 9th June, 2023 with respect to the letters dispatched to the shareholders, who have not claimed the dividend for the last consecutive seven years.


We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **JTEKT India Limited**

SAURABH
BH
AGRAWAL
AL

**Saurabh Agrawal**
Company Secretary

Monsoon reaches Kerala after longest delay in four years

52% of India net cultivated area relies on monsoon

SANJEEV MUKHERJEE
New Delhi, 8 June

The monsoon arrived in Kerala on Thursday, seven days after its usual onset date of June 1, which, according to some reports, is the longest delay in four years.

A delayed monsoon is, however, no indication of the trajectory the rains will take in the coming months. In the first eight days of this year, rain in the country has been almost 60 per cent less than normal.

A late start to the monsoon could delay the sowing of major kharif crops like paddy, pulses, and oilseeds. The India Meteorological Department (IMD), in its latest weather update, said the monsoon had advanced into remaining parts of South Arabian Sea and some parts of Central Arabian Sea, the entire Lakshadweep area, most parts of Kerala, some parts of South Tamil Nadu, remaining parts of the Coromandel area, the Gulf of Mannar, and some more parts of southwest, central and northeast Bay of Bengal on June 8.

It said in the past 24 hours, cloudiness had increased over the Southeast Arabian Sea and there had been widespread rainfall in Kerala.

The Met said conditions were favourable for the monsoon advancing into more parts of the Central Arabian Sea, the rest of Kerala, some more areas of Tamil Nadu, swathes of Karnataka, more parts of the Southeastern Central and Northeast Bay of Bengal, and regions of Northeastern states during the next 48 hours.



Clouds cover the skyline during the onset of monsoon over Kerala a week later than usual, in Kochi, on Thursday. PHOTO: PTI

MONSOON ONSET FORECAST AND ACTUAL DATES

YEAR	Actual	Forecast
2018	May 29	May 29
2019	June 8	June 6
2020	June 1	June 5
2021	June 3	May 31
2022	May 29	May 27
2023	June 8	June 4

Source: IMD

In mid-May, the IMD said the monsoon might arrive in Kerala by June 4.

The monsoon arrived in the southern state on May 29 last year, June 3 in 2021, June 1 in 2020, June 8 in 2019, and May 29 in 2018.

India is expected to get normal rain during the season, notwithstanding the evolving El Niño weather conditions, the IMD had

said earlier.

Northwest India is expected to see normal to below-normal rain. East and Northeast, Central and the South Peninsula are expected to receive normal rain at 94-106 per cent of the long-period average (LPA) of 87 cm.

According to the IMD, rain below 96 per cent and 104 per cent of the 50-year average of 87 cm is considered "normal".

Less than 90 per cent of the LPA is "deficient", 90-95 per cent "below normal", 105-110 per cent "above normal", and more than 100 per cent "excess".

The monsoon is critical to India's agriculture, with 52 per cent of the net cultivated area relying on it. It is also critical in replenishing reservoirs, vital for drinking water, apart from power generation across the country.

Rain-fed agriculture accounts for about 40 per cent of the country's food production.

IBBI proposes changes to voting on bids for bankrupt companies

RUCHIKA CHITRAVASHI
New Delhi, 8 June

New system of voting on more than one resolution plans, extending the timeline for submission of claims, and introducing audit for insolvency resolution process cost in some cases are among a series of changes the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has proposed to the existing insolvency regulations under IBC.

To ensure that preference of plan is captured, and creditors are able to vote freely, it is proposed to use a system of voting with preference, the insolvency regulator said in a discussion paper published on Wednesday.

This means if no plan achieves the 66 per cent required votes, the proposal with least first preference

votes is eliminated and its first preference is allotted to the second highest voted plan, the paper stated.

The IBBI has proposed that wherever the total assets of the corporate debtor as per the latest audited financial statements exceed ₹100 crore, the resolution professional will get the audit of insolvency resolution process cost conducted at the expense of the cost of the IRPC for the financial year.

While bringing out the discussion paper, the IBBI said there were no criticisms against the resolution process under the Code. First, that fewer companies were

being resolved with lesser value realisation and the time taken for such resolution is longer than what the law prescribes. "This paper analyses resolution processes that have been completed and are ongoing, presents the understanding of issues that are adversely affecting the efficiency and effectiveness of the resolution process," the IBBI said.

The proposed regulations also seek to make it compulsory for the resolution professional to provide reasons for the rejection of any claim to ensure transparency in the process and provide clarity to creditors whose claims have been rejected, while allowing cred-

itors to submit claims beyond the 90-day limit without approaching the adjudicating authority.

While the move will give enhanced flexibility to creditors and reduce burden on the NCLTs, the IBBI has cautioned that it could add to delays and increase the responsibility of the resolution professional. The IBBI has proposed that promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor should hand over the assets as per the balance sheet of the company. If this is not available, then a list of assets being handed over to the resolution professional has to be prepared.

The IBBI has also proposed that the application process should have the creditor submit an affidavit, detailing the chronology of the debt and default, and explaining why

the application is not barred by limitation.

In a move that could help the homebuyers, the authorised representative of the financial creditors is also proposed to be given more responsibility, such as helping the resolution professional to increase the marketability of the assets of the corporate debtor and also assist in modification of resolution plan as decided by the members of CoC.

The IBBI has also proposed to increase the fee of the authorised representative to be commensurate with the increased duties to double the current levels.

The relevant minutes of the CoC meetings, the IBBI has said, should also be included in the existing Form H, which deals with the details of the CIRP.

FUEL CONSUMPTION RISES 9% IN MAY TO 20 MILLION TONNE

Fuel consumption in India, a proxy for oil demand, rose 9 per cent on an annual basis in May. On a sequential basis, consumption rose by 8 per cent.


Consumption of fuel totalled 20 million tonnes (mt) in May, up from 18.37 mt in May 2022, data released by the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) on Thursday showed.

Sale of diesel, the most used fuel in the country, rose 11.9 per cent to an all-time high of 8.21 mt in May. Diesel sales were 7.28 mt in May 2022. Petro sales also reached record levels, rising 10.8 per cent to 3.34 mt over the month, up from 3.01 million tonnes in the year-ago period.

Meanwhile, LPG offtake rose to 2.34 mt in the latest month, up from 2.15 mt in May 2022.

SUBHANYA CHAKRABORTY

FUEL CONSUMPTION IN 2023 (IN MILLION TONNE)



* Figures do not add up as other items contribute to total list
Source: Petroleum Planning and Analysis Cell

Cap subsidised fertiliser bags, overhaul PM-AASHA: CAPC

The Commission for Agricultural Costs and Prices (CAPC) in its non-price recommendations to the government, has suggested capping the number of subsidised fertiliser bags each farmer can avail of, to handle the subsidy burden.

It also sought to bring uniformity in the nutrient-based subsidy regime. The commission has come down heavily on the PM-AASHA scheme meant for procurement of oilseeds and pulses in the event of a price fall, saying the performance of PM-AASHA has not been very encouraging due to lack of interest from states.

It has advocated limiting paddy procurement from those states which announce bonuses over MSP or levy additional cess and surcharges. SANJEEV MUKHERJEE

TENDER CARE

JOHN ABRAHAM LAUNCHES INDIANOL'S SERVO HYPERSPORTS & SERVO GREASE MIRACLE



SERVO Brand Ambassador and popular Indian Film actor, Mr. John Abraham, launched SERVO HyperSport F5 Fully Synthetic 4T Engine Oil for motorcycles at a function held in New Delhi. In addition, an innovative SERVO Grease Miracle, a premium grease was also launched. These groundbreaking new products were unveiled in the presence of Mr. S M Vaidya, Chairman of IndianOil, Mr. V Sathish Kumar, Director (Marketing), Dr S V Ramakumar, Director (R&D) and other Board Members, Channel Partners and Customers besides senior officers of the Corporation.

FLEET OF NEW VEHICLES FITTED WITH SAFETY FEATURES FOR NLCIL MINES FLAGGED OFF BY CMD, NLCIL

NLCIL revamped the entire transport system in its three Mines by replacing nearly 150 vehicles, including 47 personal carriers, 34 open lorries, 7 cane vans and 7 refuelers, with new vehicles of TATA SA 1218, T 4x4 chassis BS VI at a cost of 30 crores conforming to the latest emission norms. The new fleet of vehicles for the three Mines was flagged off by the Corporation Office by Shri Motupalli Prasanna Kumar, CMD, NLCIL. During the occasion, Functional Directors Shri Sunesh Chandra Samra, Director (Mine) & Director (Fin/Additional Charge), Shri Samir Swarup, Director (HR), Shri M. Venkatasubramanian, Director (Power), Shri L. Chandrasekar, CVONLCL and senior officials of NLCIL, were present.

BOIOA MUMBAI GOA UNIT CELEBRATES 59th FOUNDATION DAY EUPHORICALLY

Bank of India Officers' Association (Mumbai & Goa) Unit had organized Blood Donation Camp to celebrate its 59th Foundation Day. The said camp was held at Bank Of India Head Office, BKC, Mumbai on 06-06-2023. This philanthropic initiative was carried out in association with Indian Red Cross Society. The camp was inaugurated at the hands of BOI MD & CEO Shri Rajneesh Kamatak and Federation of Bank of India Officers' Association President Shri Nilesh Pawar. The occasion was also graced by Executive Directors Shri P R Rajagopal, Shri M Kartikeyan & Shri Subrat Kumar, Chief General Manager (HR) Shri Shri Bajrang Singh, BOIOA Mumbai Goa Unit President Shri Sanjay Sarva & other dignitaries. Notably, CGM (HR) S B Singh, CGM (IT) Sudhiranjan Padhi, BOIOA (Mumbai & Goa) Unit General Secretary Shri Nilesh Pawar & President Shri Sanjay Sarva enthusiastically donated blood on the inaugural occasion. The organizer of this philanthropic event, Units General Secretary Shri Gajendra Pawar conveyed heartfelt greetings of 59th Foundation Day of the organization & expressed immense satisfaction about the ardent response received to the camp, wherein more than 200 units of blood were collected.

UNION BANK OF INDIA ORGANISES MEGA LOAN OUTREACH CAMP

Union Bank of India organized Mega Loan Outreach Camp on 8th June 2023 at Community Center, Sector 22, Chandigarh. The program was organized under the guidance of Mr. Anand Kumar, Mentor and Corporate General Manager, Mr. Arun Kumar Field General Manager, Mr. Sanjeev Kumar, Regional Head, Regional Office Chandigarh, Councillor Mr. Damanpreet Singh Nagpal and President of Vendor Association Sector 22, Mr. Roshan were present as special guests. The program was inaugurated by lighting the lamp by the dignitaries present on the occasion.

In his inaugural speech, Regional Head Mr. Sanjeev Kumar highlighted the contribution made by Union Bank of India through various loan schemes to small, big and small traders and workers, and participation of micro, small and medium industries in the development of the country. Field General Manager Mr. Arun Kumar in his address explained in detail the resolution of Union Bank of India to implement various social schemes of the Government and various collateral free loan facilities and guarantee schemes easily available for common man. Mr. Anand Kumar, Mentor and Corporate General Manager, who came from the Central Office Mumbai, in his address highlighted various public welfare policies of the bank and various products.

HRRL LEADS MASSIVE TREE PLANTATION DRIVE

On the occasion of World Environment Day, HRRL Rajasthan Refinery Limited (HRRL) at Pachpadra, Barmer took a pioneering step towards increasing the green cover in the area through a remarkable mass tree plantation initiative. In a remarkable display of solidarity, 17,000 trees were planted on 67 acres, spread over 5,000 acres, within a span of just three hours. The plantation program commenced at the HRRL Refinery township, where it was graced by Shri Kamalakar Vikhar, CEO of HRRL, along with Shri Reji Mathews, ED-Projects (Site In Charge), Senior officials and other employees and their families residing in the township. The event began with the administration of the Environment Day pledge by HRRL CEO, followed by mass tree plantation by the refinery's contractors and project officers at various locations within the refinery site.

UBI CONDUCTS PAINTING COMPETITION

An awareness painting competition was held at the Union Bank of India Regional Office, Avinashi Road, Coimbatore, on the project 'Union Muskan'. On this occasion, Renjith Swaminathan, Regional Head and Deputy General Manager of the Bank presenting the prizes to the children who participated in the competition.

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai 600 002

23rd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing (VC) or Audio Visual Means (AVM)

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 7th July, 2023 at 11.00 a.m. in Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing (VC) or Audio Visual Means (AVM), in compliance with the applicable provisions of SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, 11/2020, 20/2020, 02/2021, 22/2020, 33/2020 and 1/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2022/22 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI) with respect to the shareholders as common venue.

In compliance with the above mentioned circulars, the Annual General Meeting of the bank will be held by Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (AVM). Hence, the members can attend the AGM by using their personal devices. The detailed procedure for participating in the meeting will be stated in the notice for Annual General Meeting.

In compliance with the above circulars, the members are hereby informed that the electronic copies of the Notice of the 23rd AGM and Annual Report (2022-23) will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participants. Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email addresses are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective depositories through their Depository Participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers by clicking on the link <https://investors.comsecurities.com> with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Canoo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002. Alternatively you may send email to register email address and mobile number by providing the required documents to agm@comsecurities.com.

Further, Shareholders holding shares in physical mode may get their email id registered by clicking the link <https://investors.comsecurities.com>. The Notice of AGM will also be made available on the Bank's Website www.ioib.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the 23rd AGM through electronic voting system. Further the bank is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. The manner of remote voting-voting at the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode and physical mode will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Bank, www.ioib.in and on the website of the Stock Exchanges.

Shareholders may please note that in terms of above mentioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to the Shareholders. However, as per SEBI circular, hard copies shall be sent to those shareholders who requested for the same.

By order of the Board of Directors
Ajay Kumar Shrivastava
Ajay Kumar Shrivastava
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date: 8th June 2023

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED
www.hindustancopper.com

Notice Inviting "Expression of Interest (EOI)"

for Development, Operation & Maintenance of Kendadihi UG Copper Mine at Indian Copper Complex (ICC) of IICL, Jharkhand, India EOI Notice No. HCL/CO/EOI/23-24/01 Dated: 09.06.2023 Hindustan Copper Limited (HCL) proposes to enhance its Copper ore production capacity at its Kendadihi Underground Copper Mine at ICC, Ghatshila, Jharkhand. For this purpose, HCL invites Expression of Interest (EOI) from the interested, experienced, established and reputed parties. Interested parties are requested to refer the terms and conditions as laid down under "Information to the Interested Parties" with this notice and submit their EOI as per Annexure-I within 10.07.2023 at 15:00 hrs, in the NIC Portal.

It may be noted that submission of EOI does not in any way constitute any kind of commitment on the part of HCL. For further details, any query may be mailed to the following:

Shri Saurabh Nag Assistant General Manager (Mines) Hindustan Copper Limited, Tanna Bhawan, 1, Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata - 700019
Email: sgn@hindustancopper.com
Mobile: +91 97482 00377 (Sunil Parashar) General Manager (Commercial)

Regd. Office: Tanna Bhawan, 1, Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata - 700019
Tel: 91 33 22923226, Email: sgn@hindustancopper.com
Website: www.hindustancopper.com, CIN: 527019WB1800028825

JTEKT

JTEKT INDIA LIMITED
(CIN - L29113DL1984PLC18415)

Regd. Office: UGF-6, Indraprastha, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.
Tel: 011-23311624, 23327205
E-mail: investor@jtekt.com Website: www.jtekt.com

NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, all shares in respect of which dividend has not been paid for one year or more are required to be transferred by JTEKT India Limited (formerly known as Sona GYO Searing Systems Limited) ("the Company") in the name of Investor Education and Protection Fund ("the IEPF") established by the Central Government pursuant to the provisions of Section 125 of the Act.

Individual communication in this regard has been sent to the Shareholders who have not claimed their dividends for last seven consecutive years. Name of such shareholders along with their folio number/DP ID-Client ID is available on the website of the Company at www.jtekt.com under "Investor Relations". In case concerned shareholder(s) wishes to stop transfer of their shares in the name of Fund, such shareholder(s) are requested to claim the unpaid or undivided dividend for any of the preceding seven year(s) from the Company. Manner in which a shareholder can claim unpaid/undivided dividend is provided under the individual communication sent to the shareholders.

In case no communication is received from the concerned shareholders within the time period and in the manner provided under the individual communication, the Company shall cause to transfer the shares in the name of the Fund pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Any person whose shares/unpaid dividend is transferred to the Fund may claim the shares/dividend from the Investor Education and Protection Fund pursuant to the provisions of Section 124-6 and 125 of the Act and the Rules by submitting an online application in Form IEPF-4 available on the website www.iepf.gov.in with a copy to the Company.

For any information / clarification on this matter, concerned shareholders may write to the Company at investor@jtekt.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, "Investor Relations", Kanoy Software Tower, Plot 13, 32, Gachibowli, Financial District, Nansakramguda, Hyderabad 500032 - Mr. Rajeev Kumar, e-mail id rajeev.kr@jtekt.com.

Place: Gurugram
Date: 08.06.2023

TATA TATA POWER

(Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, 2nd Floor, Sector Receiving Station, Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400099
(Board Line: 022-47171180) Email: contracts@tatapower.com

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following packages (Two Part Bidding):
Tender 1 - Supply of provided metering panel with meters for MV GIS at Sakri, Ambernath, Vikhroli and Chembur.
(Package Reference No: CC24M0008).

Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023.
(Package Reference No: CC24M0017)
Tender 2 - Supply of Installation & Commissioning of 220kV core 160DSMM Copper XLP E Lead sheath Cable along with accessories for 110KV Parali-Mahalaxmi - Cable replacement Project. (Package Reference No: CC24M019)

Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023.
(Package Reference No: CC24M0101)
Tender 3 - Supply & Installation for Balance of Plant package of 220 V 125 MW AR reactor proposed at Trombay.
(Package Reference No: CC24M0100).

Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023.
(Package Reference No: CC24M0101)
Tender 4 - 3 years O&M for Construction of 11 kV 22kV/33kV CSS
(Package Reference No: CC24M0011)
Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023
(Package Reference No: CC24M0105)

Tender 5 - Supply of safety equipment at various transmission RSS.
(Package Reference No: CC24M0101)
Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023
(Package Reference No: CC24M0101)
Tender 6 - Supply and commissioning of 220V MV circuit breaker at Trombay Station B, 220 V 125 MVA reactor (2 No.).
(Package Reference No: CC24M0106)

Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023
(Package Reference No: CC24M0101)
Tender 7 - Supply of 220V KFTs for 125 MW AR reactor at Trombay (6 No.).
(Package Reference No: CC24M0101)
Last date of Bid Submission (through-tender system) is 1500 hrs of 03rd July 2023
For downloading the Tender documents (including procedure for participation in tender), please visit Tender section on website www.tatapower.com. Further communication shall be with participating bidders only, through Tata power e-tender system.

